

Neeraj Paper Marketing Ltd.

CIN: L74899DL1995PLC066194

Regd. Office: 218-222, Aggarwal Prestige Mall, Road No. 44, Near M2K Cinema, Pitampura, Delhi-110034 | Ph.: (91-11) 47527700 | Fax: 011-47527777

E-mail: accounts@neerajpaper.com | Website: www.neerajpaper.com

07.09.2022

SCRIP CODE: 539409

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement regarding Notice of 27th Annual General Meeting Ref: Reg 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Advertisement published on 4th September, 2022 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) intimating the shareholders about 27th Annual General Meeting (AGM) of our company to be held on 30th September, 2022 at 11:30 A.M through Video conferencing /Other Audio Visual Means.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully'
For Neeraj Paper Marketing Limited

Deepa Kumari

(Company Secretary and Compliance Officer)

Encl as above

Mumbai Office: F-38, Nand Dham Udyog Premises Co-Op. Society Ltd.Marol Maroshi Road,

Marol, Andheri (East) Mumbai - 400059 | Rhone: 022-29201746

Branch Office: 4 Km, Bhopa Road, Behind Petrol Pump, Muzaffarnagar - 251002 (UP)



23

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Jhandewalan Extension Branch 3E/4. Jhandewalan Extension Branch.

New Delhi-110055

POSSESSION NOTICE (for immovable property) Appendix-IV [See rule-8(1)] Whereas, The undersigned being the authorised officer of the BANK OF INDIA, Jhandewalan Extension under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets

Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.06.2022 calling upon the borrower Shri Vishal Kumar (Proprietor M/s JMD Silver India) and Guarantor & Mortgagor Mrs Babita Srivastava to repay the amount mentioned in the notice being Rs.30,15,617/- (Thirty Lakh Fifteen Thousand Six **Hundred and Seventeen)** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described

herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of

and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under

Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 31st day of August of the year 2022; The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the BANK OF INDIA for an amount of Rs.30,15,617/- (Thirty Lakh Fifteen Thousand Six Hundred and

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY All that part and parcel of the property consisting of DDA LIG, Flat no. 98. Pocket-1 Sector A-9, Narela, Delhi-110040 in the name of Babita Srivastava W/o Mukand Srivastava

Bounded: On the North by: Open/Park, On the East by: Road/Open,

On the South by: Road, On the West by: Flat no. 99/Entry

Date: 31.08.2022 Place : New Delhi

Seventeen) and interest thereon.

Authorised Officer (Bank of India, Jhandewalan Extension)

STEEL STRIPS INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L27109PB1973PLC003232 Regd. Off: Village Somalheri/ Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.)-140506. Tel: +91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834 Email: ssl ssg@glide.net.in. Website: www.ssilindia.net NOTICE OF 49TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.

Notice is hereby given that: The 49th Annual General Meeting (49th AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the September 30, 2022 at the Registered Office of the Company at 12:00 p.m. at Regd. Off: Village Somalheri/Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Moha (Pb.) to transact the business as set out in the notice dated 11.08.2022.

Copies of the Notice of the 49th AGM (Notice) and Annual Report of the Company fo the financial year 2021-22 were sent to all the members at their registered address in physical mode and in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company/ Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 1, 2022 and the same is also available on the Company's website www.ssilindia.net

 Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutof date of September 23, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Specia Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting. . A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both

the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on Septembe 27, 2022 at 9:00 a.m. and end on September 29, 2022 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 29, 2022. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download

section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (Both days

Date: 03.09.2022 Place: Chandigarh For Steel Strips Infrastructures Limited Sanjay Garg, Managing Director DIN-00030956

SAB INDUSTRIES LIMITED

CIN: L00000CH1983PLC031318 Regd Off: SCO 49-50, Sector 26, Madhya Marg, Chandigarh-160019. Tel: +91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834 Email: ssl ssg@glide.net.in. Web Site: www.sabindustries.in NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING.

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that:

inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

 The 38th Annual General Meeting (38th AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the September 30, 2022 at the Registered Office of the Company at 3:30 p.m. at SCO 49-50, Sector 26, Madhya Marg, Chandigarh-160019 to transact the business as set out in the notice dated 11.08.2022. Copies of the Notice of the 38th AGM (Notice) and Annual Report of the Company fo

the financial year 2021-22 were sent to all the members at their registered address in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 1, 2022 and the same is also available on the Company's website www.sabindustries.in Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutof

date of September 23, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Specia Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL)

. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2022 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing Use ld and password for casting vote through remote e-voting. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by bot the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.

. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on Septembe 27, 2022 at 9:00 a.m. and end on September 29, 2022 at 5:00 p.m. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on September 29, 2022. (c) In case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rule thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM). For SAB Industries Limited

Date: 03.09.2022 Place: Chandigarh Sanjay Garg, Addl. Managing Director DIN-00030956

INDIAN ACRYLICS LIMITED

CIN: L24301PB1986PLC006715 Regd. Office: Village Harkishanpura, Sub-Tehsil Bhawanigarh,

Distt. Sangrur (Punjab) -148026. Email: shares@indianacrylics.com, Website: www.indianacrylics.com Phone: +91-172-2793112., Fax: +91-172-2794834 NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING.

E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE. Notice is hereby given that:

1. The 35th Annual General Meeting (35th AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the September 29, 2022 at the Registered Office of the Company at 11:00 A.M. at Village Harkishangura, Sub-Tehsil Bhawanigarh, Distt. Sangrur (Punjab)-148026 to transact the business as set out in the notice dated 19.07.2022.

2. Copies of the Notice of the 35th AGM (Notice) and Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 were sent to all the members at their registered address in electronic mode to those members whose e-mail id registered with the Company Depository Participant(s). The dispatch has been completed on September 2, 2022 and the same is also available on the Company's website www.indianacrylics.com 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff

date of September 22, 2022, may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business(es) as set out in Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). 4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of the

meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2022 may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with CDSL for remote e-voting, he can use his existing User Id and password for casting vote through remote e-voting.

5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of voting by both the modes, vote casted through remote e-voting will be considered final.

6. The members are informed that (a) The remote e-voting shall commence on September 26, 2022 at 9:00 A.M. and end on September 28, 2022 at 5:00 P.M. (b) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on September 28, 2022. (c) Ir case of any queries relating to voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800225533, or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

7. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books for of the Company will remain closed from September 23, 2022 to September 29, 2022 (Both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting (AGM). For Indian Acrylics Limited

Date: 03.09.2022 Place: Chandigarh

Bhavnesh K Gupta, FCS-3255 **GM Cum Company Secretary**

HINDUSTHAN URBAN INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Kanchenjunga, (7th Floor) 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 CIN: L31300DL1959PLC003141, E-mail: investors@hindusthan.co.in Website: www.hindusthanurban.com, Phone: +91-11-23310001-05

NOTICE OF THE 62^{10} ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 62st Annual General Meeting (AGM) of the members of Hindusthan Urban Infrastructure Limited is scheduled to be held on Tuesday, 27th September 2022 at 10:00 AM through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM). In Compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 and all other applicable laws and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the notice of the meeting. In Compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting along with the

Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with the company's Registrar i.e Skyline Financial Services Private Limited, Phone: 011-40450193/197, email id compliance@skylinerta.com; Members may note that the Notice of the Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2021-22 are also available on the Company's website www.hindusthanurban.com; and website of the stock exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com. The dispatch of Notice through email is completed on 3" September 2022.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has also been provided in the Notice to the shareholders. The details are also available on the Company's website i.e. www.hindusthanurban.com

For Hindusthan Urban Infrastructure Limited

Place: New Delhi Date: 03.09.2022

Date: 31.08.2022

Place: New Delhi

Date: 02.09.2022

CORRIGENDUM - FORM-A

BECKONS INDUSTRIES LIMITED

Attention of Creditors is drawn to CIRP Public

Announcement published in "FORM-A", in this

newspaper on 01st September 2022. The

Corrected CIN (Sr.No.4) & Registered

Regd. Address: SCF:-725, INDRA MARKET

JALALABAD (WEST) JALALABAD, Firozpur,

Other details and terms & conditions remains

Date: 03.09.2022 Place: Chandigarh

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

contents. The Indian

ANIL ARORA
Interim Resolution Professional for

BECKONS INDUSTRIES LIMITED

Address (Sr.No.5) is as follows :-

CIN: L21017PB1992PLC012574

PUNJAB-152024

unaffected & unchanged.

Place: Delhi

M.L.Birmiwala President-Finance & Secretary

Ritz Mercantile Limited

Regd. Off.: 603, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place, New Delhi-110008 CIN: L52110DL1985PLC019805 NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the shareholders of RITZ MERCANTILE LIMITED will be held on Monday, the 26th September, 2022 at 04:00 P.M. at the registered office of the Company to transact the business as mentioned in the notice calling Annual General Meeting.

Notice is also given that in compliance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the register of members and share transfer books will remain close from 20th September, 2022 to 26th September, 2022 (both days inclusive) for the said AGM of the

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM through electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of Alankit Assignments Ltd. the RTA of the Company as the agency to provide e-voting facilities.

The notice of AGM is also available on the website of the Company. The remote e-voting facility will commence on 23rd September, 2022 at 09.00 a.m. and ends on 25th September, 2022 at 5.00 p.m. The e-voting mode shall be disabled thereafter.

Any person who acquires shares of the Company and become a member after the dispatch of the AGM notice and holds shares as on the cut-off date viz. 19th September, 2022, may obtain the user name and password by sending a e-mail request to info@alankit.com or call Alankit Toll free number 1800-113300. If a member is already registered with Alankit e-voting, then he can use his existing user ID and Password for casting vote through remote e-voting.

Facility of voting through Poll (Ballot) paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. Members who have cast their vote by remote-evoting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM. In case of any query, pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's Section available at

remote e-voting may also be addressed to:-Alankit Assignments Ltd., Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan, Extn., New Delhi-110055, Ph. No. 011-4254 1234, 2345 1234, e-mail: rta@alankit.com

CDSL website link http://evotingindia.com. The query or grievance connected with the

For Ritz Mercantile Ltd. Garvit Singhvi

Whole-Time Director DIN: 00597757

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED (CIN: L74899DL1995PLC066194)

Regd. office: 2/8 - 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. Pitampura, New Delhi - 110034 Website: www.neerajpaper.com;

Tel.: +91 11 47527700, Fax - +91 11 47527777

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 27th Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Friday

30th September 2022 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). Ir compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 27th AGM is also available on the Company's website www.neerajpaper.com, on the website of Stock Exchange <u>www.bseindia.com</u> and on the website of <u>www.evotingindia.com</u>. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 2nd September, 2022.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e- voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E- Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e - voting period commences on 27th September 2022 at 10:00 A.M. and ends on 29th September 2022 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e - voting shall be Friday, 23rd September 2022. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the

Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Friday, 23rd September 2022 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetalrta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 29th Sept, 2022. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized

mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beeta Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin

Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Broks of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (Both day inclusive) for 27th Annual General meeting of Company.

> By Order of the Board FOR NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED (Mansi) Company Secretary

WITH YOU, RIGHT THROUGH

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

Nothern Regn. Office: The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi - 67 Tel.: 011-41115111. CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

PUBLIC NOTICE

This has reference to the E-Auction Sale notice dated 03-Aug-2022 which was published on 04-Aug-2022 in this

newspaper by the Authorized Officer of HDFC Ltd. This is to inform the public at large that the E-Auction of properties listed AT SERIAL NO. 6 OF MS MANJU SINGH(WIFE /LEGAL HEIR/LEGAL REPRESENTATIVE OF LATE MR SURYA BHAN SINGH (BORROWER) (SINCE DECEASED) mentioned in the E-Auction Sale notice dated 03-Aug-2022 which was published on 04-Aug-2022 in this newspaper stands cancelled till further notice. E-Auction of the rest of the properties as mentioned in the E-Auction Sale notice dated 03-Aug-2022 which was published on 04-Aug-2022 in this newspaper will proceed as per the schedule.

within 60 days from the date of receipt of said notice.

For Housing Development Finance Corporation Ltd.

Date: 03-09-2022 Authorised Officer Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020

IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW Ministry of Finance (Department of Economics Affairs) 600/1 University Road. Near Hanuman Setu Mandir Lucknow- 226 007

(Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) S.A. No.- 449 of 2022

Vimal Dhinora Applicant

Place: Delhi

Diwan Housing Finance Corporation Ltd Responden

(3) Sml. Babita Gupta, W/o Ramesh Gupta, R/o House No N-186, Pratap Vihar, P.S. Vijay Nagar, Ghaziabad. Whereas, in the above said case, the applicant has made a Application under Section 17 (1) of the SARFAESI Act, 2002

Registrar of this Tribunal on 10" day of October, 2022 at 10:30 A.M. in the forencon in person of by a pleader/Advocate t show cause, why the said S.A. should not be allowed. Failing which the said S.A. will be heard and determined ex parte. Given under my hand and seal of this Tribunal on 31" day of

PUBLIC NOTICE It is informed that a house number 26 area 100 square yards. khasra number 1108M situated at Mahendra Enclave, Village Razapur, Shastri Nagar, Ghaziabad-UP was purchased by Shri Manoj Kumar vide sale deed dated 28.02.2002 (Serial number 1214) thereafter he executed a Will dated 24.04.2015 (Serial number 166) in favour of Shri Pramod Kumar. Said Shri Pramod kumar got ownership rights vide said Will executed a sale deed dated 22.02.2019 in favour of present owner Shri Surendra Pal Singh which was registered in the office of Sub-Registrar, Ghaziabad on dated 22.02.2019 Bahi 1 Zild 7534 Pages 239/344 at Serial number 1316. Now said Shri Surendra Pal Singh obtains financial facility from Hero Housing Finance Ltd. after mortgaging the house in their favour. If any person/institution has any objection regarding ownership of Pramod Kumar proposed financial facility or proposed mortgage, can place his/its objection through the below mentioned mobile no. within ten days from the date of publication. Beyond this period no objection will be admitted.(Meena Diskshit) Advocate, Room No. 88, Law Chamber Building, Meerut Kutchery, Meerut Mobile Number: 9412-203-251

बैंक ऑफ बड़ीटा Bank of Baroda

copy of S.A. is herewith enclosed ake notice that you are hereby required to appear before the

Enclosed: As Above

Registrar, Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Bank of Baroda Rai Distt. Sonipat

POSSESSION NOTICE (for Immovable property/ies) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002).

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the BANK OF BARODA under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated on the dates mentioned against account and stated herein after calling upon them to repay the amount

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Guarantor and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the dates mentioned against below mentioned account.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of of Bank of Baroda for an amount and interest thereon given below mentioned account.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Movable/ Date of Amount O/s Borrower/ Guarantor Immovable property mortgagor demand notice possession Sh. Satish Kumar S/o Equitable mortgage a Plot in 27.06.2022 30.08.2022 Rs. 2471518.88 Sh. Ishwar Singh S/o the Name of Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Mehar Singh (Rupees Twenty Four Lakh Seventy One Sh. Kundan Lal (Guarantor) resident of Village Asawarpur Tehsil & District Thousand Five Rai measuring 75 Sq yards i.e. 1/2 share of total land 150 sq yards i.e. 0K-5M Hundred Eighteen comprosed in knewat no 725/669 share khata no. 814 killa no 162//1/1 (4-2) 10(3-6) and Eight Paisa only) 163//6/1/1(4-1) situated in Partap Colony Near Shiv Garden Gopalpur Road and interest thereon Kharkhoda Tehsil Kharkhoda Distt. Sonipat. As per valuation report the Plot is at the constructual bounded from East (59'-9") House of Satbir, West (59'9:) Part of Plot of Bijender, North rate plus cost, 11'-2") Gali and South (11'-2") Land of Other charges and

expenses till date of payment. Authorized Officer, Bank of Baroda

₹ 12,31,019.13

(Rupees Sixteen Lakh)

Ninty Three Thousand

Six Hundred Thirty Four

& Paise Fifteen only)

+ interest & other

charges w.e.f 01.08.2022)

Date of NPA

29.06.2022

Date of Demand Notice

23.08.2022

पंजाब नैशनल बैंक

Guarantor

1. Smt. Priyanka Anand W/o Sh.

1. 1.M/S Anand Enterprises

Place: Rai

Dated: 03.09.2022



Hypothecation of Stocks and Receivables

Branch Office: Circle Sastra Center, Haldwani (823400), Uttarakhand, Ph. 9557611888, E-Mail: cs8234@pnb.co.in **DEMAND NOTICE (60 Days Notice to Borrowers/Guarantors)**

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 All the borrowers/guarantors/co-obligants mentioned herein below are notified that loan(s) availed by them

from Punjab National Bank is/are NPA/s. The demand notice u/s 13(2) of the SARFAESI Act. 2002 sent through Registered Post/Courier have been received/ returned undelivered. We indicate our intention of taking possession of secured securities whose brief are mentioned below as per section 13(4) of Act in case of their failure to pay the amount mentioned along with future interest and charges within 60 days. The borrower's/guarantor's attention is invited to the provision of Sub Section (8) of Section-13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. Name & Address of Borrower/ **Description of Mortgage Securities Outstanding Amount**

Gadarpur (145410) Branch	(Borrower) Proprietor Mr. Sunny Arora, ADD: Ward no 7 Bank of Baroda Gali Gadarpur, Uttarakhand-263152	Created out of the Bank Finance Present & future. Ownership : M/s Anand Enterprises.	(Rupees Twelve Lakh Thirty One Thousand & Ninteen & Paise Thirteen only) + interest & other charges w.e.f 01.08.2022) Date of NPA 04.05.2022 Date of Demand Notice 23.08.2022
Haldwani (210420) Branch №	1. Sh. Raju Sharma S/o Sh.Prem Narayan (Borrower), Add: Maa Poornagiri Auto Workshop (Eicher Mehanic), R/o D/41 Near Hydle Office Transport Nagar Haldwani, Uttarakhand-263139. 2. Smt. Jasantra Devi W/o Sh.	EM of IP Situated at Khet No 499 Min. Village Haldwani Talli Sati Colony Indra Nagar Distt. Nainital 263139 Uttarakhand of area 1068.20 Sq ft. Boundaries- East: 15' wide Road, West: Land Of Bhatt Ji, North: Hem Chand Palariya, South:Land Of Pant Ji.Ownership: Smt. Jasantra Devi W/o Sh. Prem Narayan.	₹ 7,68,277.30 (Rupees Seven Lakh Sixty Eight Thousand Two Hundred Seventy Seven & Paise Thirty only) + interest & other charges w.e.f 01.08.2022)
	HERRIC NEW YORK NORTH NEW SECTION (1997) - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Date of NPA 30.05.2022 Date of Demand Notice 23.08.2022

Floor in Royal Greens Constructed Upon Manoj Anand (Borrower), Add 1 Bhumidhari Land Comprising of Khasra No 97 D78 Green Park Kashipur Road Min Area Admeasuring 1553.44 Sq Ft. i.e 144.37 Rudrapur Uttarakhand 263153 Add2: E3 Bali Vihar Model colony Sq. Meter. Boundaries: East: Lift, West: Flat No T-1/110, North: Raasta 7 Meter, South: Galary Rudrapur Udham Singh Nagar Ownership : Smt. Priyanka Anand W/o Shri Uttarakhand 263153. Add3: Flat Manoj Anand. No T-1/108 At First Floor Royal Greens Rudrapur Uttarakhand 263153. 2. Sh. Narender Kaur (Guarantor), Add: Gali No 1, Malik Colony, Rudrapur

図 Udham Singh Nagar 263153

Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realization/income. The borrowers/ guarantors are advised to collect undelivered original notice(s) addressed to them from our concern Branch and pay the amount outstanding with interest and their costs within 60 days from the date of this publication to void further action under the Act. Date: 04.09.2022 **Authorised Officer**

Place: Haldwani, Distt. Nainital

पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank ...the name you can BANK upon!

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with provison

to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the Authorised officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on" As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentiond in the table herein below, for recovery of dues due to the Bank/Secured creditor from the respective borrower(s), and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties. SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS Details of Name of The Branch Description of the Immovable

	The Borrower/Guarantor/Mortgager
	This notice is also be treated as 1
1.	Branch: Laxman Jhula Road Rishikesh Borrower: 1. M/s New Tant Bazar, Prop.: Smt. Vanajakshi Kallapali alias Vanajakshi Agrawal W/o Mr. Neeraj Agarwal, R/o Bhawan No. 43 Gali No. 9. Vaarbhadra, Rishikesh Guarantor/

Name of the Account

R/o Bhawan No. 43, Gali No. 9, Veerbhadra, Rishikesh. Branch: Laxman Jhula Road Rishikesh Borrower: Shri Neerai Agarwal S/o Shri Kishori Lal Agarwal. R/o Bhawan No. 43. Gali No. 9. Veerbhadra. Rishikesh. Co-Borrower: Smt. Vanajakshi Kallapali alias Vanajakshi building 85/57, North: Other's property, Agrawal W/o Mr. Neeraj Agarwal, R/o Bhawan No. 43, Gali No.

at Laxmipura Kanpur owned by Shri Neeraj Agarwal S/o Shri Kishori Lal Kanpur nagar at Book No. 1, Zild No. 7975. Page 1 to 20 at Sr. No. 285 on 31.01.2017. Bounded & butted as under: East: Nazul Land, West: Balance half portion of

(B) Rs. 32,43,754/-(B) Rs. 18,91,200/-(C) 22.03.2022 C) 04.10.2022 Up to 05.00 PM (D) Rs. 0.50 Lakh (A) 10.06.2021 (B) Rs. 1,00,14,687/-(C) 22.03.2022

 The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions.: The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

 The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com. 5. For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in 6. For any query the Interested bider May Contact Shri S.P. Chettri, Mob. No. 9719967785 & Shri R.K. Kohli , Mob. No. 9412052465

Date: 03.09.2022

New Delhi

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

EM of IP Situated at Flat No T-1/108 At First ₹ 16,93,634.15

(A) Dt. of Demand Notice u/s 13(2) of SARFAESI Act 2002 (A) Reserve Price DATE The (B) Outstanding Amount as on Properties Mortgaged/Owner's (B) EMD & TIME Encumbrances (C) Possession Date u/s 13(4) Name (Mortgagers of Property (C) Last Date of deposit of EMD OF Known To of SARFAESI Act. 2002 AUCTION The Secured (D) Bid Increase Amout (D) Nature of Possession Symbol

/Physical/Constructive Creditors 5 days statutory notice to under Rule 8(6) Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (A) 20.07.2021 EM of private plot No. 31, Part of premises (A) Rs. 1,89,12,000/-06.10.2022 Not know no. 85/57 area 104.936 sq. mtr. Situated 11:00 AM Agarwal which is registered with S R I, (D) Symbolic Possession 12:00 PM

(D) Symbolic Possession South: Road 7.62 meters wide road.

....भरोसे का प्रतीक! Circle Office- 01 Paltan Bazar, PNB House, Dehradun, Uttarakhand

Mortgager: Shri Neeraj Agarwal S/o ShriKishori Lal Agarwal,

9, Veerbhadra, Rishikesh. TERMS AND CONDITIONS:

Place: Dehradun

Authorised Officer

financialexp.epag



बैंक ऑफ बड़ौदा राई जिला सोनीपत

बकाया गणि

2471518.88 五

चौबीस लाख इकहत्तर

हजार पांच सी अठारह

रुपये और अठासी पैसे

मात्र) और उस पर

आगे की संविदात्मक

दर पर ब्याज और

भगतान की तारीख तक

लागत, प्रभार और खर्चे

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम s(1) के साथ के पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चुंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे वर्णित राशि अदायगी और खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को डिमांड नोटिस जारी किया था कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार और गारंटर व सामान्य तौर पर जनता को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 व उप धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के अंतर्गत वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ता का विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतदुद्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन नीचे खाते के अंतर्गत वर्णित अनुसार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभृतित

डिमांड नोटिस

क्रकते

पारसपात्तवा का मुक्त व	भरवान क ।लए	समय	उपलब्ध ह	5
कर्जदार/गारंटर	चल/अचल	रेहन	सम्मत्ति का	

की तिथि की तिथि का नाम श्री सतीश कुमार पुत्र श्री ईश्वर प्रताप कॉलोनी शिव गार्डन 27.06.2022 30.08.2022 गोपालपर रोड के पास खरखोदा तहसील खरखोदा जिला सोनीपत में स्थित सिंह पुत्र श्री कुन्दन लाल खेवट नंबर 725/669 शेयर खाता नंबर 814 किला नंबर 162//1/1 (4-

2) 10(3-6) 163//6/1/1(4-1) में शामिल क्षेत्रफल 75 वर्ग यार्ड यानी कल भूमि 150 वर्ग यार्ड का 1/2 हिस्सा यानी 0के- 5एम, श्री नरेश कमार पत्र श्री मेहर सिंह (गारंटर) निवासी ग्राम असावरपर तहसील और जिला राय के नाम पर प्लॉट का सम्यक रेहन। मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सीमाबद्ध पूर्व (59'-9") सतबीर का घर, पश्चिम (59'9:) बिजेंदर के प्लॉट का हिस्सा, उत्तर (11'-2") गली और दक्षिण (11'-2") अन्य की भूमि।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा दिनांक: 03.09.2022 स्थानः राई

> नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड (CIN: L74899DL1995PLC066194)

पंजीकृत कार्यात्तयः 218 - 222, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नंबर 2, कम्युनिटी सेंटर, रोड नंबर 44 के साथ, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110034

वेबसाइट: www.neerajpaper.com; द्वरभाष: +91 11 47527700, फैक्स - +91 11 47527777

वार्षिक साधारण सभा, बही समापन एवं ई-वोटिंग जानकारी की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के रोयरधारकों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा राक्रवार 30 सितम्बर, 2022 को 11.30

बजे पूर्वा. में वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य संसाधनों (''वीसी/ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 2020 और परिपत्र सं. 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020 और सेबी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 05 मई 2022 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई 2022 के साथ आगे विस्तार, के अनुपालन में, कंपनियों को किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम आयोजित करने करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः, कंपनी की एजीएम का आयोजन वीसी के माध्यम से उस सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए किया जा रहा है, जो सूचना व्यक्तिगत रूप में अंशधारकों को उस स्थिति में ई-मेल के द्वारा पहले ही प्रेषित कर दी गई है जिस स्थिति में वे डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कर चुके हैं। एमसीए एवं सेबी द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां प्रेषित करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 27वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.neerajpaper.com पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना का | प्रेषण-कार्य, 2 सितंबर 2022 को पूर्ण किया जा चुका है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और व्यवसायों का लेब-देब सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिभिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदाब की गई ई-वोर्टिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ई-वोटिंग की सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग की अवधि 27 सितंबर 2022 को प्रातः 10.00 बने प्रारम्भ होगी और 29 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बने समाप्त होगी। किसी संकल्प पर एक बार शेयरधारक द्वारा मतदान कर लेने के बाद, इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोर्टिंग के प्रयोजन के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार 23 सितंबर 2022 है। इलेक्ट्रॉनिक वोर्टिंग अनुदेशों के लिए, शेयरधारक कंपनी की एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेश पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति जो रोयर अर्जित करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 23 सितंबर 2022 के अनुसार पात्र रोयरधारक है, वह श्री पूनीत मित्तल से (011-29961281) या beetalrta@gmail.com पर संपर्क करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोर्टिंग की अनुमति 29 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। सदस्यगण रिमोट ई-वोर्टिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान भी वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जो वीसी स्विधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहते हैं, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है वे एजीएम में ई-वोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ के अनुसार सदस्यों के रिजस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभार्थी स्वामियों के रिजस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई-वोर्टिंग की सुविधा ग्रहण करने

भौतिक पद्भित अथवा डिमैटेरियलाइन्ड पद्भित में रोयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते अद्यतनीकृत नहीं कराए हों, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

ई-वोर्टिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/समस्या के लिये आप श्री पुनीत मित्तल, महा प्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज पा. लि. से इममजंसतजं/हउंपसण्बवउ टेलीफोन नं. 011-29961281 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से सम्पर्क कर सकते हैं या www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशचन्स (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैन्युअल का सन्दर्भ ले सकते हैं। एतदृद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 के अनुसार भी सूचित किया जाता कि कंपनी की 27वीं वार्षिक साधारण सभा के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं अंश अन्तरण बहियां शनिवार 24 सितंबर 2022 से लेकर के शुक्रवार 30 सितंबर 2022 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

> बोर्ड के आदेशन्सार कृते नीरन पेपर माकिटिंग लिमिटेड (मानसी) कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय : 11/7, मथुरा रोड, सेक्टर-37, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नं. 12, जीएफ, मैग्नम टॉवर-1, सेक्टर-58, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गुरुग्राम-122011, हरियाणा

दिनांकः 02.02.2022

स्थानः दिल्ली

तिथि : 03.09.2022

दूरभाष : 0124-422234-35, ई-मेल आईडी : isc_mpdl@mpdl.co.in वेबसाइट : www.mpdl.co.in, सीआईएन : L70102HR2002PLC097001 20वीं वार्षिक आम बैठक, <u>ब</u>ुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग <u>की सुचना</u>

. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन–देन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडिये कांफ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 3.30 बजे अप. में आयोजित की जायेगी। एमसीए अपने परिपत्र सं. 2/2022, 19/2021 एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी अन्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') ने अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (सामहिक रूप से ''सेबी परिपत्र'') द्वारा सदस्यों की किसी कॉमन वेन्य पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनमति दी है। इन परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी। 2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित एजीएम की सुचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी गयी है जिनके ई-मेल

पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/डिपॉजिटरी के पास 19 अगस्त, 2022 तक पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2021–22 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://www.mpdl.co.in/annual-report-fy-2021-22 तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कम्पनी ने शेयरधारकों के पास 3 सितम्बर, 2022 को एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट केवल ई-मेल के माध्यम से भेज दी है। 3. बुधवार, 21 सितंबर, 2022 (कट-ऑफ तिथि) तक भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारक का वोटिंग अधिकार कंपनी

के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरधारक के अनुपात में होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी। 4. सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में प्रावधानित हैं

5. कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई–वोटिंग'' प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग (''ई-वोटिंग'') के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रावधानित है।

6. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 25 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी तथा मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इसके श्चात वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

7. एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2022 को या उससे पहले कंपनी के शेयरधारक बनने के मामले में, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि यह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वे वोट डालने के लिए अपने मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

8. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि :

(i) एक बार संकल्प पर शेयरधारक द्वारा वोट कर दिए जाने के बाद, इसे बाद में बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। (ii) एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित वे शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से

(iii) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले शेयरधारक भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे: और

(iv) रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए केवल वही व्यक्ति हकदार होगा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी हारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।

9. जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 तथा ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :

(क) भौतिक शेयरधारकों हेतु : कृपया ई–मेल द्वारा कम्पनी/आरटीए को आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड

प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति) उपलब्ध करायें। (ख) डीमैट शेयर धारक कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक का लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल-8 अंक

डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति) उपलब्ध करायें।

10. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 से बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 तक (दोनों तिथियाँ शामिल) 11. निदेशक मण्डल ने रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा के लिए मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएटस (सीपी सं.

13700) के साझेदार श्री देवेश कमार विशष्ठ तथा उनकी अनपस्थित में मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएटस के श्री विजय के. सिंघल (सीपी सं. 10385) पता

: बी-88, प्रथम तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 12. सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से सम्बन्धित निर्देशों का अध्ययन कर लें। यदि कोई जानकारी चाहें तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Downloads खण्ड में Frequently Asked Question (FAQs) for Shareholders तथा remote e-voting user manual for

Shareholders का सन्दर्भ लें अथवा सम्पर्क करें : सुश्री सरिता मोते, ई-मेल : evoting@nsdl.co.in के माध्यम से अथवा टोल फ्री नं. : 1800-222-990 अथवा श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबन्धक, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से ई-मेल admin@mcsregistrars.com के माध्यम से अथवा दूरभाष नं. 011-41406149 तथा पता : ट्रेंड वर्ल्ड, ए-विंग, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोअर परेल, मुम्बई-400013. 13. ग्रीन इनिशिएटिव का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराये हैं अथवा अपना ई–मेल पता अपडेट कराना चाहते

हैं वे कृपया अपने सम्बन्धित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक धारिता हेतु) अथवा एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड/कम्पनी (भौतिक धारिता हेतु) से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें।

निदेशक मण्डल के आदेशानसार

एमपीडीएल लिमिटेड रिकल कम्पनी सचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर NDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDORE

खंडवा रोड , सिमरोल , इन्दौर – 453552 Khandwa Road, Simrol, Indore - 453552 Ph: +91-731-6603592 / 3369 / 3580, Email: mms@iiti.ac.i ई-निविदाएं आमंत्रण सूचना ∕ NOTICE INVITING E-TENDERS आईआईटी इंदौर द्वारा 1. आई.आई.टी. में संस्थान के लिए ईआरपी (इंटरप्राइव रिसोर्स प्लॉनिंग) सिस्टम ईओआई के लिए रूचि की अभिव्यक्ति। 2. अनुबंध जनशक्ति की नियुक्ति आउटसोसँ

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि सहित संपूर्ण विवरण के लिए, कपया आई.आई.टी.आई. की वेबसाइट: CPPP & GeM: http://www.iiti.ac.in/tenders/tender_mms, https://eprocure.gov.in/epublish/app&http://www.gem.gov.in বর্ত্তা E-Tenders are invited by IIT Indore for the following Services: Expression of Interest (EOI) For ERP (Enterprise Resource Planning) Systems for the Institute. 2. GeM Custom Bid No. GEM/2022/B/2482232 for OUTSOURCING SERVICE FOR ENGAGEMENT OF CONTRACT MANPOWER

सेवा के लिए GeM बिंह संख्या GEM/2022/B/2482232 के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की

For complete details including last date of submission of e-tenders, please visit IIT Indore website, CPPP & GeM:
http://www.iiti.ac.in/tenders/tender_mms, https://eprocure.gov.in/epublish/app & http://www.gem.gov.in प्रभारी क्लसचिव/REGISTRAR I/C

आईएफएल हाउसिंग फाइनांस लि. । पंजी. कार्या.: डी-16, प्रथम तल, प्रशांत विहार, -

ि दिल्ली-110085, CIN : U65910DL2015PLC285284 शाखा के स्थानांतरण की सूचना विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वार सुचित किया जाता है कि कोटपुतली, राजस्थान में स्थित गह ऋण शाखा को 3 माह के भीतर नवीन पते पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

1192, बछड़ी मोहल्ला, निकट पुरानी कृष्णा टॉकीज, पीएनबी बैंक के ऊपर, कोटपुतली, जयपुर-303108 प्रस्तावित नवीन पता : त्रिलोक प्लाजा, 1 ला तल, अमर्ड रोड. एसबीआई बैंक के ऊपर. अमर्ड कोटपतली. जयपुर राजस्थान-303108 यदि किसी भी कारण से निर्धारित अवधि में यह

वर्तमान पता : 1 ला तल, पट्टा नं. 1980, खसरा नं

स्थानांतरण पुरी नहीं हो पाती है तो इसकी सुचना अगले प्रकाशन द्वारा दी जाएगी। अधिक विवरणों के लिए कृपया 8595010101 से सम्पर्क करें। प्राधिकत अधिकारी

आईएफएल हाउसिंग फाइनांस के लिए

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

CIN: L99999DL1984PLC019052 🛡 पंजी. कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नंबर 2 कम्युनिटी सेंटर, रोड नंबर 44 के साथ,

पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 & बोर्ड: +91 11 47527700 | 📆 फैक्स:+91 11 47527777

🖾 ई-मेल: agarwalduplex1984@gmail.com | 🌐 वेबसाइट: www.agarwalduplex.net वार्षिक साधारण सभा, बही समापन एवं ई—वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयरधारकों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार 28 सितम्बर, 2022 को 11.30 बजे पूर्वा. में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, निकट एम2के सिनेमा, पीतमपुरा दिल्ली—110034 में आयोजित की जाएगी। कंपनी की एजीएम का आयोजन व्यक्तिगत विधि के माध्यम से उस सुचना मे निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए किया जा रहा है, जो सूचना पहले ही अंशधारकों को व्यक्तिगत रूप मे कूरियर अथवा यदि उनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत हैं, तो ईमेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। 38वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.agarwalduplex.net पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in पर तथा www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। एजीएमी की सूचना का प्रेषण-कार्य, 2 सितंबर 2022 को पूर्ण किया जा चुका है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और व्यवसायों का लेन-देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ई-वोटिंग की सुविधा www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग की अवधि रविवार 25 सितंबर 2022 को प्रातः 10.00 बजे प्रारम्भ होगी और मंगलवार 27 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। किसी संकल्प पर एक बार शेयरधारक द्वारा मतदान कर लेने के बाद, इसे बाद में बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। ई—वोटिंग के प्रयोजन के लिए कट—ऑफ तिथि बुधवार 21 सितंबर 2022 है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुदेशों के लिए, शेयरधारक कंपनी की एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेश पढ सकते हैं।

कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और जो कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 21 सितंबर 2022 के अनुसार पात्र शेयरधारक है, वह श्री पुनीत मित्तल से (011–29961281) या beetalrta@gmail.com पर संपर्क करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित 27 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी

सदस्यगण, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमित नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान भी वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने

भौतिक पद्धति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते अद्यतनीकृत नहीं कराए हों, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / समस्या के लिये आप श्री पुनीत मित्तल, महा प्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. से beetalrta@gmail.com टेलीफोन नं. 011-29961281 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्री नितिन कुन्दर (022–23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022–23058543) या श्री राकेश दलवी (022–23058542) से सम्पर्क कर सकते हैं या www.evotingindia.com पर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैन्युअल का सन्दर्भ ले सकते हैं।

एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 के अनुसार भी सूचित किया जाता कि कंपनी की 38वीं वार्षिक साधारण सभा के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं अंश अन्तरण बहियां बृहस्पतिवार 22 सितंबर 2022 से लेकर के बुधवार 28 सितंबर 2022 (दोनों दिवस सिम्मिलित) तक बोर्ड के आदेशानुसार

कृते अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

(सारिका अग्रवाल)

कम्पनी सचिव

स्थानः दिल्ली दिनांकः 03.09.2022



वेबसाइटः www.jaypeeinfratech.com, ई-मेलः jpinfratech.investor@jalindia.co.in

15वीं वार्षिक साधारण सभा, ई—वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी इत्यादि की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के सदस्यों की 15वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) का आयोजन सोमवार 26 सितंबर 2022 को अपराहन 12.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य दृश्य–श्रव्य संसाधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से साधारण स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना किया जाना अनुसूचित है। यह आयोजन, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्रों दिनांकित 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021 तथा 05 मई 2022 (सामूहिक रूप में 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्रों दिनांकित 13 मई 2022, 15 जनवरी 2021 एवं 12 मई 2020 के द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, एजीएम सूचना दिनांकित 26 अगस्त 2022 में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होनेवाले सदस्यों हेतू जानकारी एवं अनुदेशों का संवर्णन सूचना की टिप्पणियों में किया गया है तथा एजीएम में उपस्थित होने के लिए व्यवस्थित वेबलिंक https://www.evotingindia.com है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सभा में उपस्थित होनेवाले सदस्यों की संगणना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उद्देश्यार्थ की जाएगी।

सुसंगत परिपत्रों के अनुपालन में, 15वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय विवरणों, अंशधारकों हेत् प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक के प्रतिवे. दनों एवं वहां उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य प्रलेखों से समाविष्ट वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड करने के लिंकों से युक्त ईमेल सूचना 02 सितंबर 2022 को कंपनी के उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है, जिनके ईमेल पते 19 अगस्त 2022 के अनुसार कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.jaypeeinfratech.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं तथा एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की सूसंगत नियमावली के साथ पिठत उसकी धारा 108 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी, कट-ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितंबर 2022 के अनुसार भौतिक प्रारूप में अथवा अभौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले अपने सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की तिथि से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर अपना वोट डालने के

अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। अतः, समस्त सदस्यो को सूचित किया जाता है किः i) एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन, रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से

ii) रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ शूक्रवार 23 सितंबर 2022 को (प्रात: 9.00 बजे भा.मा.स. पर) होगा;

iii) रिमोट ई—वोटिंग का समापन रविवार 25 सितंबर 2022 को (सायं 5.00 बजे भा.मा.स. पर) होगा;

iv) रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की योग्यता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 19 सितंबर 2022 होगी;

v) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सुचना के प्रेषणोपरांत कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर 2022 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह यहां नीचे दिए गए पते पर सीडीएसएल को एक अनुरोध भेजकर प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकत है, तो अपना वोट डालने के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है:

vi) सदस्यगण कपया ध्यान दें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को उपर्यक्त तिथि एवं समय के उपरांत मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डाल दिए जाने के बाद उसे बाद में इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (ख) एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य हालांकि वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता कर सकते हैं परंतु उन्हें एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पुनः अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा; ग) 15वें एजीएम में प्रतिभागिता कर रहे सदस्य तथा वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के अधिकारी होंगे; तथा घ) कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में जिन व्यक्तियों के नाम अभिलेखित हैं, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने तथा एजीएम के समय पर ई-वोटिंग करने की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

vii) मतदान अधिकारों (रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेत) की संगणना, कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत अंश के प्रदत्त मूल्यों पर की जाएगी।

viii) यदि आपको एजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम की ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न पूछना है या इस संबंध में आपकी कोई शिकायत है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। ix) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा से संबद्ध समस्त शिकायतें श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल),

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन पयूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित करते हुए अग्रसारित करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल प्रेषित करें अथवा टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर कॉल करें। x) भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्य, जिनके ई-मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, एक हस्ताक्षरित अनुरोध-पत्र

की स्कैंड प्रति, जिसमें नाम, फोलियो नंबर और पर्ण पते का उल्लेख हो, पैन कार्ड की स्वसत्यापित स्कैंड प्रति और कंपनी के साथ पंजीकृतानुसार सदस्यों के पतों के अनुसमर्थन में आवश्यक प्रलेख (जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वसत्यापित स्कैंड प्रति ई–मेल द्वारा jpinfratech.investor@jalindia.co.in पर भेजकर अपने ई–मेल पते पंजीकत कर सकते हैं। अभौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्य, अपने डिपॉजिटरीज के साथ अपने ई–मेल पते अद्यतनीकत कर सकते हैं। xi) एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सूचीकरण विनियमावली के विनियम 42 के अनुपालन में सूचित किया जाता

है कि सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंशांतरण बहियां. एजीएम के उददेश्यार्थ 24 सितंबर 2022 से लेकर के 26 सितंबर 2022 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। अंतरिम समाधान पेशेवर के आदेशानुसार

कृते जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड सुरेंद्र कुमार माटा

कंपनी सचिव एसीएसः ७७६२

तिथि : 03 सितम्बर, 2022

स्थान : दिल्ली

SINGER

सिंगर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L52109DL1977PLC025405) **पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय:** ए-26/4, द्वितीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110044

टेली: +91-11-40617777, टोल फी नंo. 1800-103-3474

र्ज-मेलः secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, वेक्साइटः www.singerindia.net 44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के लिए शुद्धिपत्र

सिंगर इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को दोपहर 3:00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा कंपनी की शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के आयोजन के लिए वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की सचना के लिए शुद्धिपत्र जारी किया गया है जिसके लिए कंपनी के पंजीकत कार्यालय ए-26/4. द्वितीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली—110044 को बैठक का स्थान माना जाएगा। यह शुद्धिपत्र एजीएम सूचना दिनांक 29 जुलाई 2022 के संयोजन के साथ पदा जाए जो कि कंपनी की वेबसाइट और बीएसई लिमिटेड जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, में भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना कंपनी अधिनियम. 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिभृति तथा विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में सभी शेयरघारकों को 17 अगस्त, 2022 को भेज दी गई हैं।

यह शुद्धिपत्र एजीएम का एक एकीकृत भाग होगा और ई—मेल के माध्यम से कंपनी के उन सभी शेयरधारकों को 2 सितम्बर, 2022 को मेज दिया गया है जिन्हें एजीएम सूचना मेजी गई थी। तदनुसार, सभी संबंधित शेयरधारक, स्टॉक एक्सचेंज, ढिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, ई-वोटिंग के लिए नियुक्त एजेंसियां, अन्य प्राधिकरण, विनियामक एवं सभी अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि बैठक में निष्पादित किये जाने वाले एजीएम कामकाज के संबंध में नीये वर्णित नये संयोजन को नोट करें:

श्री हेतल मध्कांत गांधी (ढीआईएन: 00106895) को कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

श्री मनीश मानसिंहका (ढीआईएन: 00031476) को कंपनी के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप

में नियुक्ति को अनुमोदित करना। शुद्धिपत्र में वर्णित विवरणों के अलावा व्याख्यात्मक विवरणों के साथ एजीएम सूचना दिनांक 29 जुलाई, 2022 के सभी अन्य मद एवं संदर्भ यथावत रहेंगे। यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट

> बोर्ड के ओदश से कते सिंगर इंडिया लिमिटेड हस्ता/-राजीव बजाज प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 03.09.2022

J. SELECTION

www.singerindia.net पर भी उपलब्ध है।

इंडियन अक्रिलिक्स लिमिटेड CIN: L24301PB1986PLC006715

इं-मेल: shares@indianacrylics.com, येबसाइट: www.indianacrylics.com फोन: -91-172-2793112, फैक्स: -91-172-2794834 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी

पंजी कार्यालय: गांव हरिकशनपुरा उप तहसील भवानीगड़, जिला संगरूर (पंजाब)-148026

तथा किताब बंदी की सचना

एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि:-

कंपनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (35वीं एजीएम) सूचना दिनांक 19.07.2022 में तथ अनुसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव हरिकशनपुरा, उप-तहसील भवानीगढ़, जिला संगरूर (पंजाब)-148026 में वीरवार, 29 सितंबर, 2022 को पूर्वाह 11.00 बजे आयोजित होना अधिसचित है।

35वीं एजीएम (सूचना) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पंजीकत पतों पर भेज दी गई हैं जिनकी ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटस के साथ पंजीकत है। भेजने का कार्य 2 सिंतवर, 2022 को परा कर लिया गया है और जो कंपनी की वेबसाइट www.indianacrylics.com पर भी उपलब्ध है। कट ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2022 को भौतिक विधि या डिमैटरिलाइन्ड रूप में शेयरधारक सदस्य

सचना में तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने वोट इलैक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बैठक की सुचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अथात 22 सितंबर, 2022 को शेयरधारक है वो रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम सुचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकत है वो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वर्तमान यजर आइडी तथा पासवर्ड का

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों विधियों हारा वोट डाले

जाने की स्थिति में, रिमोट ई-चोटिंग द्वारा डाले गए योट को अंतिम विचारा जाएगा। सदस्यों को सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा 28 सितंबर, 2022 को सायं 5.00 बने बंद होगी। (ख) दिनांक 28 सितंबर, 2022 को सायं 5.00 बजे के बाद इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी पृछताछ की स्थिति में सदस्य फ्रीक्वेटली आस्वड क्वेश्चन्स ("एफएक्य्") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युवल को देखें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, सीडीएसएल से ईमेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com टेली. 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

कंपनीज एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागृ नियमों की घारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 23 सितंबर, 2022 से 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते इंडियन अक्रिलिक्स लिमिटेड भवनेश के गुप्ता, एफसीएस-3255 दनांक: 03.09.2022 स्थानः चंडीगढ

अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोविन्द

वेबसाइट : www.apollotricoat.com ई-मेल : info@apollotricoat.com

Apollo TriCoat

जीएम तथा कंपनी सचिव

सदस्यों को 40वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना यह हमारी पूर्व की सूचना दिनांक 31 अगस्त, 2022 की निरन्तरता में है जिसके द्वारा अपोलो ट्राइकोट ट्रयूब्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 201 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 02/202 02/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021, दिनांव 5 मई, 2022 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेर्ब (एलओडीआर) विनियम''] तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (''सेबी परिपन्न'') के अनुपालन में 40वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिन वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') सुविधा के माध्यम से कम्पनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'' बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. आयोजित करने का निर्णय किया गया है।

40वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं ई वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यों के पास ई-मेल द्वारा 3 सितम्बर, 2022 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा उनके सम्बद्ध डिपॉजिटर्र भागीदार (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं, और यह कम्पनी की वेबसाइट (www.apollotricoat.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) प

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, के विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक-तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 40वीं एजीएम में निर्धारित समस्त संकल्पों पर सीडीएसएर द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से सदस्ये को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध की गयी है।

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 25 सितम्बर, 2022 (10.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 27 सितम्बर 2022 (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात बधवार. 21 सितम्बर 2022 (''कट-ऑफ तिथि'') तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय क

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. एजीएम की सुचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम

2. जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य र

कोई भी व्यक्ति, जो 40वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करत है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, 40वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है; तथा

4. सदस्य ध्यान दें किः क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी: ख) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दुबारा वोद देने के हकदार नहीं होंगे: ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगीः और घ) जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तक दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग य वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है तो ई-वोटिंग हेत लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें :

कपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं.. शेयर धारक का नाम. शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (सामने तथा पीछे). पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी को info@apollotricoat.com या आरटीए के investors@bigshareonline.com पर भेजें।

कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक का लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल-16 अंक का डीपीआईडी ्सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी को

info@apollotricoat.com या आरटीए को investors@bigshareonline.com पर भेजें। सम्पर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा श्री जतिन गप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्य सं. : एफसीएस 5661, सीओपी नं. 5236) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के भीतर यानी 30 सितंबर. 2022 को या उससे पहले

घोषित किया जाएगा और इस पुकार घोषित परिणामों को समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइत (www.apollotricoat.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर रख जायेगा और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर प्रस्तुत किया जायेगा जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं।

एजीएम में शामिल होने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पृछताछ या समस्या के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथ ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल करें।

> कृते एवं हिते अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड

शिवम माहेश्वरी

कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

दिनांकः 03 सितंबर, 2022

स्थानः नोएडा